



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042024-253645
CG-DL-E-12042024-253645

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 12, 2024/चैत्र 23, 1946

No. 92]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 12, 2024/CHAITRA 23, 1946

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2024

आ.अ. 101(अ).— यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निर्गत और भारत के राजपत्र में 12 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित राज्यों या संघ राज्य-क्षेत्रों में, इसके स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा की है कि उक्त अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें;

2. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा-

- (अ) उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उक्त निर्वाचन के संबंध में
- (क) नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख के रूप में 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को;
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख के रूप में 20 अप्रैल, 2024 (शनिवार) को;
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख के रूप में 22 अप्रैल, 2024 (सोमवार) को;

(घ) नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख को उस तारीख के रूप में, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में तदनु रूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा; और

(ङ) 6 जून, 2024 (गुरुवार) को उस तारीख के रूप में, जिससे पहले ऊपर उल्लिखित सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन संपन्न करा लिया जाएगा;

नियत करता है; और

(आ) उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट समय को ऐसे समय के रूप में निर्धारित करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो उपर्युक्त निर्वाचन के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में तदनु रूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में, इसके स्तंभ (3) में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के सम्मुख विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान कराया जाएगा।

अनुसूची

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तिथि और मतदान का समय

चरण-III

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र खंड	मतदान की तिथि	मतदान का समय
(1)	(2)	(3)	(4)
असम	1-कोकराझार (अ.ज.जा.)	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
	2-धुबरी	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
	3-बारपेटा	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
	5-गुवाहाटी	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
बिहार	7-झंझारपुर	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	8-सुपौल	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	9-अररिया	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	13-मधेपुरा		
	70-आलमनगर वि.स.नि.क्षे.	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	71-बिहारीगंज वि.स.नि.क्षे.	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	73-मधेपुरा वि.स.नि.क्षे.	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	74-सोनवर्षा (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	75-सहरसा वि.स.नि.क्षे.	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	77-महिषी वि.स.नि.क्षे.	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	25-खगड़िया		
	76-सिमरी बख्तियारपुर वि.स.नि.क्षे.	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे

	140-हसनपुर वि.स.नि.क्षे.	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	148-अलौली (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	149-खगड़िया वि.स.नि.क्षे.	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	150-बेलदौर वि.स.नि.क्षे.	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	151-परबत्ता वि.स.नि.क्षे.	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
छत्तीसगढ़	1-सरगुजा (अ.ज.जा.)	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	2-रायगढ़ (अ.ज.जा.)	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	3-जांजगीर-चांपा (अ.जा.)	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	4-कोरबा	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	5-बिलासपुर	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	7-दुर्ग	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	8-रायपुर	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
गोवा	1-उत्तर गोवा	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	2- दक्षिण गोवा	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
गुजरात	1-कच्छ (अ.जा.)	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	2-बनासकांठा	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	3-पाटण	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	4-महेसाणा	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	5-साबरकांठा	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	6-गांधीनगर	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	7-अहमदाबाद पूर्व	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	8-अहमदाबाद पश्चिम (अ.जा.)	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	9-सुरेन्द्रनगर	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	10-राजकोट	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	11-पोरबंदर	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	12-जामनगर	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	13- जुनागढ़	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	14-अमरेली	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	15-भावनगर	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	16-आणंद	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	17-खेडा	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे

	18-पंचमहाल	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	19-दाहोद (अ.ज.जा.)	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	20-वडोदरा	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	21-छोटोटाउदेपुर (अ.ज.जा.)	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	22-भरूच	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	23-बारडोली (अ.ज.जा.)	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	24-सुरत	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	25- नवसारी	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	26- वलसाड (अ.ज.जा.)	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
कर्नाटक	1-चिक्कोडी	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	2-बेलगाम	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	3-बागलकोट	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	4-बीजापुर (अ.जा.)	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	5-गुलबर्गा (अ.जा.)	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	6-रायचूर (अ.ज.जा.)	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	7-बीदर	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	8-कोप्पल	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	9-बेल्लारी (अ.ज.जा.)	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	10-हावेरी	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	11-धारवाड	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	12-उत्तर कन्नड	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	13-दावन्नोरे	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	14-शिमोगा	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
मध्य प्रदेश	1-मुरैना	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	2-भिण्ड (अ.जा.)	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	3-ग्वालियर	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	4-गुना	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	5-सागर	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	18-विदिशा	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	19-भोपाल	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	20-राजगढ़	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
महाराष्ट्र	32-रायगड	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	35- बारामती	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	40- उस्मानाबाद	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे

	41-लातुर (अ.जा.)	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	42-शोलापुर (अ.जा.)	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	43- माधा	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	44- सांगली	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	45- सतारा	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	46-रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	47-कोल्हापुर	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	48-हातकणंगले	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
उत्तर प्रदेश			
	8-सम्भल	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	16-हाथरस (अ.जा.)	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	18-आगरा (अ.जा.)	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	19-फतेहपुर सीकरी	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	20-फिरोज़ाबाद	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	21-मैनपुरी	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	22-एटा	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	23-बदायूं	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	24-औंवला	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	25-बरेली	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
पश्चिम बंगाल			
	7-माल्दहा उत्तर	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	8-माल्दहा दक्षिण	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	9-जंगीपुर	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	11-मुर्शिदाबाद	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव			
	1-दमन और दीव	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	2-दादरा और नागर हवेली (अ.ज.जा.)	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
जम्मू एवं कश्मीर			
	3-अनन्तनाग-राजौरी	07.05.2024 (मंगलवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे

[सं. 464/ईपीएस/2024(3)]

आदेश से,

संजीव कुमार प्रसाद, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th April, 2024

O.N. 101(E).—WHEREAS, the President of India has, by notification issued under sub-section (2) of Section 14 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on the 12th April, 2024 (Friday), been pleased to call upon each of the parliamentary constituencies, specified in column (2) of the Schedule below, in the States or Union Territories mentioned in column (1), of the Schedule to elect members to the House of the People, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

2. **Now, therefore**, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

- (A) **Appoints**, with respect to the said election, from each of the parliamentary constituencies specified in the said Schedule,
- the 19th April, 2024 (Friday)**, as the last date for making nominations;
 - the 20th April, 2024 (Saturday)**, as the date for scrutiny of nominations;
 - the 22nd April, 2024 (Monday)**, as the last date for withdrawal of candidatures;
 - the date specified in column (3) of the **SCHEDULE** below, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken in the parliamentary constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule; and
 - the 06th June, 2024 (Thursday)**, as the date before which the election shall be completed in all the above mentioned parliamentary constituencies; and
- (B) **Fixes the hours** specified in column (4) of the said Schedule, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, on the date specified against such constituency in column (3) thereof, for the above election.

SCHEDULE**Parliamentary Constituencies, Dates and Hours of Poll****PHASE-III**

<i>State/Union Territory</i>	Parliamentary Constituency/Assembly Constituency segment	Date of Poll	Hours of Poll
(1)	(2)	(3)	(4)
ASSAM	1-Kokrajhar (ST)	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 05:00 PM
	2-Dhubri	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 05:00 PM
	3-Barpeta	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 05:00 PM
	5-Guwahati	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 05:00 PM
BIHAR	7-Jhanjharpur	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	8-Supaul	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	9-Araria	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	13-Madhepura		
	70-Alamnagar AC	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	71-Bihariganj AC	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	73-Madhepura AC	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	74-Sonbarsha (SC) AC	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	75-Saharsa AC	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	77-Mahishi AC	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 04:00 PM

	25-Khagaria		
	76-Simri Bakhtiarpur AC	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 04:00 PM
	140-Hasanpur AC	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	148-Alauli (SC) AC	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 04:00 PM
	149-Khagaria AC	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	150-Beldaur AC	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 04:00 PM
	151-Parbatta AC	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
CHHATTISGARH	1-Surguja (ST)	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	2-Raigarh (ST)	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	3-Janjgir-Champa (SC)	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	4-Korba	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	5-Bilaspur	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	7-Durg	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	8-Raipur	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
GOA	1-North Goa	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	2- South Goa	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
GUJARAT	1- Kachchh (SC)	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	2-Banaskantha	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	3- Patan	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	4-Mahesana	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	5-Sabarkantha	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	6-Gandhinagar	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	7-Ahmedabad East	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	8-Ahmedabad West (SC)	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	9-Surendranagar	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	10- Rajkot	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	11-Porbandar	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	12-Jamnagar	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	13-Junagadh	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	14-Amreli	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	15-Bhavnagar	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	16-Anand	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	17-Kheda	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	18-Panchmahal	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	19-Dahod (ST)	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	20-Vadodara	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	21-Chhota Udaipur (ST)	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	22-Bharuch	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	23-Bardoli (ST)	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM

	24-Surat	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	25-Navsari	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	26-Valsad (ST)	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
KARNATAKA			
	1-Chikkodi	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	2-Belgaum	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	3-Bagalkot	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	4-Bijapur (SC)	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	5-Gulbarga (SC)	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	6-Raichur (ST)	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	7-Bidar	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	8-Koppal	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	9-Bellary (ST)	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	10-Haveri	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	11-Dharwad	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	12-Uttara Kannada	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	13-Davanagere	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	14-Shimoga	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
MADHYA PRADESH			
	1-Morena	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	2-Bhind (SC)	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	3-Gwalior	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	4-Guna	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	5-Sagar	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	18-Vidisha	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	19-Bhopal	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	20-Rajgarh	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
MAHARASHTRA			
	32-Raigad	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	35-Baramati	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	40-Osmanabad	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	41-Latur (SC)	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	42-Solapur (SC)	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	43-Madha	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	44-Sangli	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	45-Satara	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	46-Ratnagiri-Sindhudurg	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	47-Kolhapur	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	48-Hatkanangle	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
UTTAR PRADESH			
	8-Sambhal	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	16-Hathras (SC)	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM

	18-Agra (SC)	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	19-Fatehpur Sikri	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	20-Firozabad	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	21-Mainpuri	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	22-Etah	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	23-Badaun	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	24-Aonla	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	25-Bareilly	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
WEST BENGAL			
	7-Maldaha Uttar	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	8-Maldaha Dakshin	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	9-Jangipur	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	11-Murshidabad	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU			
	1-Daman and Diu	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	2-Dadra and Nagar Haveli (ST)	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
JAMMU AND KASHMIR			
	3-Anantnag-Rajouri	07.05.2024 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM

[No. 464/EPS/2024(3)]

By Order,

SANJEEV KUMAR PRASAD, Secy.